Corporate Office:

A-60, Naraina Industrial Area, Phase-I,

New Delhi-110 028 INDIA TEL.: 91-11-41411070 / 71 / 72

E-mail: investors@shyamtelecom.com **Website**: www.shyamtelecom.com



29th August, 2023

The Manager,
Department of Corporate Services
Bombay Stock Exchange Limited ("BSE")
PhirozeJeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai – 400001
Security Code – 517411
Through BSE Listing Centre

Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited ("NSE")
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai – 400001
Security Symbol – SHYAMTEL
Through NEAPS

Subject: <u>Disclosure under Regulation 30 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015</u>

Respected Sir,

With reference to the above captioned subject, please find enclosed herewith the copy of the Newspaper clippings published on August 29, 2023 in the Financial Express (English) and Jansatta (Hindi), wherein a Public Notice has been given by way of advertisement to the Shareholders of the Company in compliance of the MCA General Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 05, 2020 and 02/2022 dated May 05, 2022 and 10/2022 dated December 28, 2022, before sending the Notice of the 30th Annual General Meeting ("AGM") together with the Annual Report for the financial year 2022-23 to the Members of the Company and other persons so entitled.

Further, please note that the 30th AGM of the Company will be held on Thursday, 28th September, 2023 at 01:00 P.M. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means and Annual Report together with the Notice of AGM for the financial year 2022-23 will be submitted in due course of time.

The aforesaid information will also be hosted on the Company's website at www.shyamtelecom.com.

This is for your information and necessary records.

Thanking you,

For Shyam Telecom Limited

Kirti Kesarwani Company Secretary & Compliance Officer

Enclosure as above

Regd. Office: Shyam House, 3, Amrapali Circle, Vaishali Nagar, Jaipur-302021 (RAJASTHAN) INDIA

Phone: 91-0141-4919021 CIN: L32202RJ1992PLC017750

FINANCIAL EXPRESS

Висо RITCO LOGISTICS LIMITED

CIN: L60221DL2001PLC112167

Reg Address: 508, 5th Floor, Jyoti Shikhar Tower, District Centre, Janakpuri, New Delhi-110058 | Phone No. 0124-4702300 Email: cs@ritcologistics.com | Website: www.ritcologistics.com

PUBLIC NOTICE- 22ND ANNUAL GENERAL MEETING

This is to inform that the 22nd Annual General meeting (AGM) of Ritco Logistics Limited ('the Company') will be convened through Video Conference('VC')/ other audio visual means ('OAVM') at 01:00 P.M. (IST) on Wednesday, September 27, 2023 without physical presence of the members at the venue in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MC/ Circulars') and Circular dated May 13, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India("SEBI Circular") which also has allowed listed entities to send their Annual Report in electronic mode (collectively referred to as Circulars). The venue of the said meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company at 508, 5th Floor, Jyoti Shikhar Tower, District Centre Janakpuri, New Delhi-110058.

Members may further note that in pursuance of above stated circulars and also in furtherance of Go-Green initiative of the government, the Notice of the 22nd AGM and Annual Report for the financial year 2022-23 along with the Financial Statements and other Statutory Reports will be sent electronically only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Registrar & Transfer Agents ('Registrar') / Depository Participants ('DPs'), as the case may be. Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only, the details of which will be provided by the Company in the Notice of the Meeting. Members attending the Meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfe Books of the Company will remain closed from Thursday, 21st September, 2023 to Wednesday, 27th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting. Members may also note that the Company will be availing e-voting services of Link Intime India

Pyt. Ltd to enable its Members to cast their vote on resolutions set forth in the Notice of the AGM. The Company has fixed Wednesday, 20th September, 2023 as the "cut-off date" for determining the eligibility of the members to vote by remote e-voting or e-voting during the AGM. Members may note that the remote e-voting period shall commence on Sunday, 24th September 2023 (9:00 A.M.) (IST) and end on Tuesday, 26th September, 2023 (5:00 P.M.) (IST). Additionally, the Company will be providing e-voting system for casting vote during the AGM.

Registration of E-Mail Addresses Members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to follow the process mentioned below for registering their e-mail addresses to receive the Notice of the AGM and Annual Report 2022-23 electronically, and to received login ID and password for remote e-Voting: In case of shares held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 Digit DPID + CLID or 16 Digit beneficiary ID), Name, client master or copy of consolidated account statement, PAN (selfattested scanned copy of PAN card), Aadhar (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to

cs@ritcologistics.com You may further write to the Company on cs@ritcologistics.com Members may note that the detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the AGM is also mentioned in the notice of AGM. The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the Company's website i.e. www.ritcologistics.com, websites of the Stock Exchanges

India Limited, at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars issued from time to

where the shares of the Company are listed, i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of

Date: 29/08/2023 Place: Delhi

Gitika Arora Company Secretary & Compliance Officer

For Ritco Logistics Limited

VINAYAK P®LYC®N Internati@nal Ltd. CIN: L25209RJ2009PLC030620) Registered Office: 312, Navjeevan Complex, 29, Station Road, Jaipur-302006

Email: investor@vinayakpolycon.com, Website: www.vinayakpolycon.com Phone: 0141-2377007, Fax: 0141-2378830 NOTICE TO THE MEMBERS FOR UPDATE OF

E-MAIL ADDRESS AND OTHER INFORMATION The 14th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video

Conferencing ("VC") and Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Saturday, 30th day of September, 2023 at 1:30 P.M. (IST) through video conferencing (VC/OAVM) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 10/2022, 2/2022, 21/2021, 02/2021 14/2020, 17/2020 & 20/2020 dated May 05, 2022, December 22, 2022, December 08 2021, December 14, 2021, January 13, 2021, April 08, 2020, May 05, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA" and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2020/79 SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 12th May 2020, 15th January 2021, 13th May 2022 and 05th January 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") without the physical presence of the members at a

Pursuant to the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of 14th AGM along with the Annual Report for FY 2022-2023 will be sent through electronic mode only, to those Members whose E-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") or with Depository Participant ("DP")/ Depository. The Company is also providing e voting during the AGM and remote e-voting facility to all its Members.

If your email address is already registered with the Company/RTA or DP/Depository, Notice of AGM along with annual report for FY 2022-2023 and login details for e-voting shall be sent to your registered email address. In case you have not registered your email address with the Company/RTA or DP/ Depository, please follow below instructions to register your email address for obtaining notice, annual report for FY 2022-2023 and login details for e-voting. Registration/updation of e-mail addresses & bank account details:

Okhla Industrial Area Phase - II, New Delhi - 110 020 in duly filled Form No. ISR-1 which can be downloaded from the website of the Company a www.vinayakpolycon.com as well as RTA's website i.e. www.masserv.com under download tab. You can also send the Form No. ISR-1 with digital signature to RTA's email id investor@masserv.com under copy marked to company at Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant

Send a request to RTA of the Company i.e. MAS Services Limited at T-34, 2nd Floor

Holding (DP).

E-voting Information

The Company will provide its shareholders facility of remote e-voting through electronic voting services arranged by NSDL. Electronic voting shall also be made available to the shareholder participating in the AGM. Details regarding the same will be provided in the Notice of the AGM and will also be made available on the Company's website viz. www.vinayakpolycon.com.

The Notice of AGM and Annual Report for FY 2022-2023 will also be available on Company website www.vinayakpolycon.com and website of BSE Limited at www.bseindia.com. Members attending the meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of Quorun under Section 103 of the Companies Act, 2013. In case of any query, the Members may contact or write RTA at address & E-mail ID as mentioned

above under copy marked to the Company. For Vinayak Polycon International Limited Place: Jaipur

Date: 28.08.2023

Shikha Natani (Company Secretary)

SHYAM TELECOM LIMITED

Regd. Office: Shyam House, 3, Amrapali Circle Vaishali Nagar, Jaipur - 302021, Rajasthan, India

Ph.: 91-141-4025631, Fax: 91-141-5100310 Corp Office: A - 60, Naraina Industrial Area, Phase - I, New Delhi - 110028 Ph.: 91-11-41411071/72, Fax: 91-11-25792194

Website: www.shyamtelecom.com, Email: investors@shyamtelecom.com INFORMATION PERTAINING TO 30" (THIRTIETH) ANNUAL GENERAL MEETING

The 30" (Thirtieth) Annual General Meeting ("AGM") of Shyam Telecom Limited ("the Company") will be held on Thursday, September 28, 2023 at 01:00 P.M. IST through video conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses set out in the Notice of AGM in adherence to the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rules made thereunder and MCA General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 read with MCA General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020; 17/2020 dated April 13, 2020; 20/2020 dated May 05, 2020 19/2021 dated December 08, 2021 and 02/2022 dated May 05, 2022 ("MCA Circulars") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with the SEBI Circulars dated May 12, 2020; January 15, 2021; May 13, 2022 and January 05, 2023 ("SEBI Circulars").

In Compliance with the aforesaid MCA and SEBI Circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for the financial year 2022-23 will be sent through e-mail to all the members of the Company whose name appear in the Register of Members at the closing of business hours on Friday, August 25, 2023 and whose email addresses are registered with the Company/Company's Registrar and Share Transfer Agent, Indus Portfolio Private Limited/Depository Participant(s). Further, the aforesaid Notice and Annual Report will also be made available on Company's website at www.shyamtelecom.com and website of both the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2015 and Regulation 44 of Listing Regulations the Company shall provide facility of remote e-voting to all the members of the Company on all the businesses set out in the Notice of AGM. Further, the manner of re-mote e-voting and e-voting at the AGM by the members holding the shares in dematerialized or physical form & Members who have not registered their e-mail id, instructions and procedure

related to login id and password for e-voting shall be provided in the Notice of AGM. Manner of registering/updating e-mail addresses

Place: New Delhi

Date: August 28, 2023

financialem.epas.in

(a) Shares Held in physical Form: Please register the PAN and KYC details to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Indus Portfolio Private Limited at G-65, Bali Nagar, New Delhi-110015 or email at shankar.k@indusinvest.com priti.g@indusinvest.com in duly filed and signed prescribed Form ISR-1 (available on the website of the Company) along with other relevant Forms and documents.

(b) Shares held in Demat Mode: Please contact your Depository Participant to register. update your e-mail address as per the process advise by your Depository Participant.

In case of any queries, Members may contact to Company Secretary of the Company having phone number 011-41411071 or email at shyamtelecom.cs@gmail.com or to Company's Registrar and transfer Agent, Indus Portfolio Private Limited at email id shankar.k@indusinvest.com / rs.kushwaha@indusinvest.com or call at 011 47671217/47671214. By Order of the Board

> For Shyam Telecom Limited Kirti Kesarwani Company Secretary

Date: August 28, 2023

Place: Jaipur



Corporate Office: 10° Floor, R Teck Park, Nirlon Complex, Nr. Hub Mall, Goregaon (E), Mumbai-400 063, MH.

POSSESSION NOTICE [SEE RULE 8 (1) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002] hereas the undersigned being the Authorized Officer of Aditya Birla Finance Limited (ABFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of the powers conferred under Section 13 (12) read with

Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated mentioned below under Section 13(2) of the said Act calling upon you being the borrowers (names and addresses mentioned below) to repay the amount mentioned in the said notice and interest thereor within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrowers mentioned herein below having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers mentioned herein below and to the

public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him / her under Section 13(4) of the said act read with Rule 8 the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. The Borrowers mentioned here in below in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with said property and any dealings with the property will be subject to the charge of Aditya Birla Finance Limited (ABFL) for an amount as mentioned herein under and interest thereon. The Borrower's attention is invited to the provisions of sub-section 8 of Section 13 of the act, in respect of time available, to redeem the secured assets

N IN	Name of the Borrower(s)	Demand Notice Dt. & O/s. Amt.	Description of Immovable property (Properties Mortgaged)	Possession Date
100	Raj Construction Co., Through Its Prop. Mr. Sanjeev Kumar Mr. Sanjeev Kumar, S/o. Mr. Mohar Mr. Mohar, S/o. Mathu Singh Mrs. Radha Devi, D/o. Gyenda Lal LAN: ABFLNDOSB0000067602, ABFLNDOSB000008072 & ABFLNDOSB0000094807	08.06.2023 ₹ 57,25,703.26 as on	All That Piece & Parcel of Property Plot Area Measuring 100 Sq. Yards (75+12.5+12.5), Bearing Khasra No. 327 Situated in Azad Vihar Colony, Village : Khoda, Paragana Loni, Tehsil & District Ghaziahad (UP)-201 001 Bounded As - Soundaries : + North By : Plot of Sanjay & Other; + South By : Plot of Jaypal & Other; + East By : Road 10 Pt.; + West By : Road 20 Pt.	23.08.2023 (Symbolic
P	ace : Ghaziahad II.P.		Authoris	Sd/- sed Officer

Date : 29.08.2023

ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED

PIRAMAL CAPITAL & HOUSING FINANCE LTD.

(Formerly Known as Dewan Housing Finance Corporation Ltd.) CIN: L65910MH1984PLC032639 **Piramal** Registered Office: Unit No.-801.6th Floor, Piramal Amti Building, Piramal Agastya Corporate Park, Kamani Junction.

Opp. Fire Station, LBS Marg. Kurla (west). Mumba-400070 - T +91223802 4000. Branch Office: Plot No 2. 1st Floor. Shayam Nagair. Adjacent to Hotel Debenture. Namaste Chowk. Karnal. Haryana - 132001. Contact Person: Ashish Handa - 904 1042572. 2. Prayeen Kumar Yaday - 99 142 20078. 3. Ramesh Kumar - 999 16 13002. 4. Vishai Ketele - 9584966653 E-Auction Sale Notice - Fresh Sale Pursuant to taking possession of the secured asset mentioned hereunder by the Authorized Officer of Aramal Capital & Housing Finance Limited [Formelly Known as DHFL] under the Security and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 for the

in the physical possession, on 'As is Where is Basis', 'As is What is Basis' and 'Whatever is There is Basis', Particulars of which are given below: - gribratetuo Loan Code / Branch / Demand Notice Barrawer(s) / Ca-Barrawer(s)/ Property Address final Amount Deposit (EMD) Date and Amount (26-08-2023) Guarantor(s) Rs.4207075/toan Code No. 14 (00003009 Dt 29-05-2023, All The piece and Parcel of the Rs. 750000/-, ,Kamal (Branch), Javed J Rs.2415117/-, Property having an extent : Shiv Rs.Seven lakh Rs.Seventy Rs.Farty Twa (Borrower), Hasina H (Co. [Rs.Twenty Four lakh] Colony Central Bank Of India Fifty Thousand Five Thousand lakh Seven Fifteen Thousand Sandon Jind Jind 126112 Barrawer 1) Thousand One Hundred Seventy Five Seventeen Only) Only)

recovery of amount due from borrower's, offers are invited by the undersigned for purchase of immovable property, as described hereunder, which is

DATE OF E-AUCTION: 30-09-2023, FROM 11:00 A.M. TO 2:00 P.M. (WITH UNLIMITED EXTENSION OF 5 MINUTES EACH), LAST DATE OF SUBMISSION OF BID: 29-09-2023, BEFORE 4:00 P.M.

For detailed terms and conditions of the Sale, please refer to the link provided in www.piramalfinance.com/e-Auction.html of email us on pramal.auchon@pramal.com "STATUTORY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER SARFAESI ACT TO THE BORROWER/GUARANTOR / MORTGAGOR

The above mentioned Borrowen'S uaranto rare here by noticed to pay the sum as mentioned in section 13(2) notice in full with accrued interest till date before the date of auction, failing which property will be auctioned/sold and balance dues if any will be recovered with interest and cost from

bo nower/guarantor. Place: Hanyana, Dale: 29/08/2023 Sd'- (Authorised Officer) Piramal Capital and Housing Finance Ltd.

Genus

GENUS PRIME INFRA LIMITED (Formerly Gulshan Chemfill Limited)

(CIN: L24117UP2000PLC032010) Regd. Office: Near Moradabad Dharam Kanta, Kanth Road, Harthala, Moradabad-244001 (U.P.)

Phone: 0591-2511242 Website: www.genusprime.com, Email: cs.genusprime@gmail.com NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice be and is hereby given that the 23th Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held through Video Conferencing ('VC') / Other Audio-Visual Means ('OAVM') on Saturday, September 23, 2023 at 11.30 A.M. IST, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, General Circular No. 19/2021 dated December 08, 2021, General Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, General Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 and General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI (collectively referred to as 'relevant circulars'), without the physical presence of the members. The members attending the AGM through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013 In compliance with the relevant circulars, the Notice of AGM and the Annual Report 2022-23 will be sent only by email to al

those members of the Company whose email id are registered with the company/ Depository Participants/ Registrar and Transfer Agent, viz. Alankit Assignments Limited. These aforesaid documents will also be available on the Company's website at www genusprime.com and on the website of the Stock Exchange, i.e. BSE Limited (https://www.bseindia.com/) and on the website of CDSL at http://www.evotingindia.com/ in due course of time. Manner of registering/updating email addresses who have not registered /updated their email addresses with the

To ensure timely receipt of Notice of AGM and Annual Report 2022-23, the members are requested to register/ update their

email address / contact number in the following manner: In case of physical holding: Member may send an e-mail request to the Company/RTA at cs.genusprime@gmail.com and

scanned copy of the signed request letter mentioning Name, Folio Number, Share certificate number, complete address email address and mobile number, and scanned copy of self-attested PAN card.

Further, shareholder may also visit the website www.genusprime.com or in email id cs.genusprime@gmail.com and update their email ID/ contact number thereof. In case of Demat Holding: Members holding shares in dematerialized form are requested to register / update their email

addresses with their relevant Depository Participant. The manner of voting remotely (remote E-voting) by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and fo

members who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of the AGM. The details will also be available on the website of the Company at www.genusprime.com and on the website of CDSL at https://www.evotingindia.com/ The login credentials for casting vote through e-voting shall be made available to the members though email. The facility for e-voting will also be made available at the AGM and members attending the AGM who have not cast their votes by remote Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining

the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or voting during AGM. n case of any query/grievance pertaining to E-voting, please contact Mr. Jeevan Kumar, Company Secretary, Phone No.: 0591

2511242, Near Moradabad Dharam Kanta, Kanth Road, Harthala, Moradabad-244001, e-mail: cs.genusprime@gmail.com This information is being issued for the information and benefit of the members of the Company, in compliance with the relevant Circulars as referred hereinabove.

> By Order of the Board For Genus Prime Infra Limited (Formerly Gulshan Chemfill Limited)

Date: August 28, 2023

Jeevan Kumar Company Secretary

HIGH STREET FILATEX LTD REGD OFFICE:B-17, IIND FLOOR, 22 GODAM INDUSTRIAL AREA, JAIPUR-302006, INDIA

Tel No: 0141-4025431 Web Site: www.highstreetfilatex.in | E-mail: highstreet.filatex@gmail.com CIN: L18101RJ1994PLC008386 NOTICE OF 29TH ANNUAL GENERAL MEETING OF HIGH STREET

FILATEX LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM") AND REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting ("AGM") of High Street Filatex Limited will be held or

Friday, September 22, 2023 at 12:30 P.M. through video conferencing ("VC") or other audio visual means ("OAVM") in accordance with the Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and Circular no. 10/2022 dated December 28 2022 read with other relevant circulars in this regards (collectively referred to as "MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and Circular no. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 read with other relevant circulars in this regards (collectively referred to as "SEBI Circulars") issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") without the physical presence of the members at a common venue. Members participating through VC/OVAM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under section 103 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

Electronic copies of the Notice of the 29th AGM and the Annual Report for the financial year 2022-23 have been sent to all the members on Monday, August 28, 2023 whose e-mail IDs are registered with the Company /Depository Participant(s)/RTA. The requirements of sending physical copy of notice of AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars as mentioned above.

In compliance with provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and

Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of Securities Exchange Board of India (Listing Obligations

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is pleased to offer remote e-voting facility to the members to enable them to cast their votes electronically from a place other than the venue of the AGM ("Remote Evoting') on all resolutions set forth in the Notice of 29th AGM, as well as e-voting during the AGM. For this purpose, the Company has signed an agreement with the Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") for facilitating e-In this regard, the Members are hereby further informed that: (a) The remote e-voting period shall start at 10:00 A.M. on Tuesday, September 19, 2023 and end at 05:00 P.M. or

- Thursday, September 21, 2023. The remote e-voting shall not be allowed after 05:00 P.M. on Thursday, September 21, 2023 and the same will be disabled by CDSL thereafter. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Friday, September 15, 2023, shall be entitled to avail the facility of remote
- e-voting and e-voting at the AGM. The detailed procedure/ instructions for remote e-voting and e-voting during AGM are contained in the Notice of the AGM. Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, September 15, 2023 may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk evoting@cdsindia.com. However, if person is already registered with
- Members who have not cast their vote by remote e-voting and are present in the AGM through VC/OVAM, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM.

CDSL for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote

Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM through VC/OVAM but shall not be entitled to cast their vote again. The notice of the AGM and annual report are available on the website of the Company i.e

www.highstreetfilatex.in and website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com. The notice of the AGM is also

- available on the website of CDSL i.e. www.evotingindia.com. For the purpose of 29th AGM the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 16, 2023 to Friday, September 22, 2023 (both days inclusive).
- Any query/grievances pertaining to voting by electronic means, the members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and remote e-voting user manual for members available at www.evotingindia.com under help section or contact to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 email: helpdesk.evoting@cdslindia.com; call toll free no. 022-23058542/43.

By the order of the Board For High Street Filatex Limited Sd/-

Mansi Jain Company Secretary and Compliance officer M. No.: 55030

PML MERCANTILE LIMITED

Flat No. Mentok- Ri, Kila Number KH 29/13 JPF 95, Village Jonapur, New Delhi - 110047 CIN: LI51909DL2004PLC129494 Email ID- pmlmercantile@gmail.com

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that the 19th Annual General Meeting of the Members of PML Mercantile Limited will be held on Monday, 25th Day of September, 2023, at 10.00 a.m. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out in the Notice of AGM only through E-voting facility.

The Members of the company including their legal representative of a deceased member and assignee of an insolvent member, statutory auditor(s) and All director(s) of the company are requested to Join the Annual General Meeting of the company through video conferencing (VC) in compliance with the provisions of the Companies Act 2013. In compliance with the MCA Circulars and applicable provisions of Companies Act, 2013, the AGM of the Company is being convened and conducted through VC and accordingly, pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), and MCA Circulars the Company is providing facility of remote E-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM.

The Notice of Annual General Meeting (AGM) along with explanatory statement and other enclosures is being sent only through electronic mode to those members whose Email addresses are registered with the Company or NSDL (Depository). Members who have not registered their email addresses and in consequence the Notice of AGM and e-voting instructions could not be serviced, may get their email address and mobile number registered with the Company, Members may send an e-mail request at the email id pm/mercantile@gmail.com along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested copy of PAN and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for obtaining the Notice of AGM and the e-voting instructions. By the order of Board

> For PML Mercantile Limited Zahaan Qureshi

> > Director

DIN: 07462255

Date: 24.08.2023 Place: New Delhi

MOHINDRA FASTENERS LIMITED

CIN: L74899DL1995PLC064215 Regd. Office: 304 Gupta Arcade, Inder Enclave, Delhi - Rohtak Road, New Delhi-110087

Website: www.mohindra.asia Email id: csnidhipathak@mohindra.asia Phone: +91-11- 46200400, 46200401 Fax: +91-11- 46200444 INFORMATION REGARDING THE 29TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS Notice is hereby given that:

1. The 29th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Friday, the 22nd September, 2023 at 11:30 A.M. (IST) through Video Conferencing 'VC'/ Other Audio-Visual Means "OAVM" without the physical presence of Members of the Company at a common venue, in compliance with the General Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022, issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") read together with previous circulars issued by the MCA in this regard (collectively to be referred as "MCA Circulars") and Circular SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January, 2023 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") read together with other circulars issued by SEBI in this regard (collectively to be referred as "SEBI Circulars"), which allow the Companies to hold their Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing("VC") or Other Audio-Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of members at a common venue till 30th September, 2023. Therefore, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM.

2. The Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only. The process of participation in the AGM will be provided in the Notice of 29th AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

3. Member may further note that in pursuance of above stated MCA Circulars and SEBI Circulars, the Electronic Copies of Notice of the AGM along with Annual Report for the FY 2022-23 shall be sent in due course to the members whose email addresses are registered with the Company/Depositories/Share Transfer Agent. Members of the Company holding shares either in physical form or in Dematerialized forms as on Benpose date i.e. Friday 25th August, 2023 will receive Annual Report along with notice of 29th AGM for the financial year 2022-23 through electronic mode only. No hard copies of the Annual Report shall be made available to the Members. The Notice of the 29th AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Company at http://mohindra.asia/mfl/shareholder corner.html & website of the Metropolitan Stock Exchange of India Limited at www.msei.in.

and contact numbers with the Company/Depositories/Share Transfer Agent (RTA) and also in case you have not updated your bank account mandate for receipt of dividend, if any, directly into the bank accounts through Electronic Clearing Service or any other means ('Electronic Bank Mandate'), you may kindly register/update the same by following the process/instructions as provided in the notes of the Notice of For shares held in Physical form: Register/Update the details in prescribed Form ISR-1 and other relevant

4. For members who are holding shares in physical form and who have not registered their email address

forms with RTA of the Company i.e. Skyline Financial Services Pvt. Ltd. at D-153/A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 at email Id compliances@skylinerta.com. Pursuant to the SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated March 16, 2023, the Company has sent letters to the Members holding shares in physical form to furnish the KYC details which are not registered in their

For shares held in De-mat form: Register/Update the details in your demat account, as per the process

5. The Company shall provide remote e-voting facility (before AGM) to all its members to cast their vote on the resolutions set forth in the Notice of 29th AGM. Additionally, the Company shall also provide the

e-voting facility during the AGM. The instructions to participate/join the AGM and the manner of casting the votes through Remote E-voting (before AGM) and e-voting during the AGM by the members who are holding shares in physical form or who are have not registered their email addresses with the company shall be provided in the notes of the Notice of 29th AGM. Members are requested to kindly view the same.

This advertisement is being issued for the information and benefit of all the members of the Company in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars.

By order of the Board

Place: New Delhi Date: 29.08.2023

advised by your Depository Participant.

For Mohindra Fasteners Limited Nidhi Pathak

Company Secretary & Compliance Officer

GRM OVERSEAS LIMITED CIN: L74899DL1995PLC064007

Regd. Office: 128, First Floor, Shiva Market, Pitampura, Delhi - 110034. Website: www.grmrice.com Email: investor.relations@grmrice.com | Phone: 011-47330330

NOTICE OF AGM AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 29th Annual General Meeting "(AGM)" of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 26th September, 2023 at 12:30 P.M through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General circulars issued by Ministry of Corporate affairs dated 08th April 2020, 13th April 2020, 05th May 2020, 13th January 2021, 08th December 2021, 14th December 2021, 05th May, 2022 and 28th December, 2022 (Collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular issued by SEBI dated 12th May 2020, 15th January, 2021,13th May, 2022, and 05th January, 2023 (Collectively referred to as "SEBI Circulars"), without the physical presence of the Members at a common

website www.grmrice.com and also on the website of the Stock Exchanges i.e BSE Limited and National Stock Echange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, where the company's share are listed and on the website of the National Securities Depositories Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com. Further, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the

In compliance with the aforesaid circulars, Notice of AGM along with the Annual Report for FY 2022-23 is being

sent only by electronic mode to those Members whose E-mail Id are already registered with the Company/

Depositaries. The Notice of AGM and Annual Report for FY 2022-23 will also be available on Company's

Company shall remain closed from Wednesday, 20th Day of September, 2023 to Tuesday, 26th Day of September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of 29th Annual General Meeting. If your email ID is already registered with the Company/ Depositary, Notice of AGM along with annual report for

FY 2022-23 and login details for e-voting shall be sent to your registered email address. In case you have not registered your email ID with the Company/ Depositary, please follow below instructions to register your email ID for obtaining annual report for FY 2022-23 and login details for e-voting. Send a request to Registrar and Share Transfer Agent of the Company, MAS Services Limited

Physical Holding Limited, T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi 100020 along with letter

at info@masserv.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (self-attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address. Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e. MAS Services

mentioning folio no. if not registered already.) Demat Holding

Date: 28/08/2023

Place: Delhi

Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP.

Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH if declare by

The Notice of AGM shall contain the instructions regarding the manner in which shareholders can Join the AGM

and cast their vote through remote e-voting and e-voting during the AGM. The Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2022-23 will be sent to the members in accordance with the applicable laws on their registered e-mail address in due course.

In case of any query, a member may send an email to the RTA at info@masserv.com. Or company at cs@grmrice.com. For GRM Overseas Limited

Sachin Narang

Company Secretary & Compliance Officer

New Delhi

Place: Moradabad

Registered Office: Vill Billanwali, Baddi - 173205, Distt: Solan (H.P) Telephone No.:+91(1795)654026 Fax No.:+91(1795) 245467 E-mail: gujarat.gears@gmail.com, Website: www.himteknoforge.com

NOTICE

Notice is hereby given to draw kind attention of the shareholders of the Company that Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 read with circulars dated May 05, 2022, dated January 13, 2021 May 5, 2020, April 8. 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") and the latest SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023, MCA and SEBI have further extended the requirement of holding Annual General Meeting through video conferencing (VC) or other audio visual means (OVAM), to send financial statements including Board reports, Auditors report or other documents required to be attached therewith along with Notice of Annual General Meeting to the Members only through email registered with the Company and relaxed the requirement of furnishing hard copy of Annual report to the Members.

We urge the shareholders of the Company to register their email address, PAN / bank details with the Company's Registrar and Transfer Agent, MCS Shares Transfer Agent Limited,1st floor, Alkapuri Neelam Apartment, 88 Sampatrao Colony, Above ChhapanBhog, Alkapuri, Vadodara -390007, Tel No.: 0265-2350490 Email: mcsitdbaroda@gmail.com or Company's Email Id: cs@gagl.net.

Public advertisement is also available on website of the Company www.himteknoforge.com.

For Him Teknoforge Limited Place: Chandigarh

Himanshu Kalra Company Secretary Manager Secretarial and Legal

इंडियन ओक्रालक्स लिमटेड CIN: L24301PB1986PLC006715

फेजी कार्यालयः गांव हरकिशनपुरा उप तहसील भवानीगढ़, जिला संगरूर (फेजाब)-148026 ई-मेलः shares@indianacrylics.com, वेबसाइटः www.indianacrylics.com फोन: +91-172-2793112, फैक्स: +91-172-2794834

36वीं वार्षिक सामान्य बैठक, ई-वोटिंग जानकारी

तथा किताब बंदी की सूचना

एतदृष्टारा सूचना दी जाती है कि:-

Dated: 28.08.2023

रशानः चंडीगढ

कंपनी की 35वीं वर्षिक सामान्य बैठक (36वीं एजीएम) सूचना दिनांक 10.08.2023 में तय अनुसार व्यापार को करने के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय गांव हरकिशनपुरा, उप-तहसील भवानीगढ़, जिला संगरूर (पंजाब) -148026 में शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को पूर्वाइ 11.30 बजे आयोजित होना अधिराचित है।

36मी एनीएम (सूचना) की सूचना और मित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कपनी की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतिया सभी सदस्यों को इलैक्ट्रॉनिक विधि में पत्रीकृत पत्ती पर भेज दी गई है जिनकी ई-मेल आइडी कपनी/डिपॉनिटरी पार्टिसिपेट्स के साथ पनीकृत है। पेनने का कार्य 24 अगस्त, 2023 को पूरा कर लिया गया है और जो कपनी की वेबसाइट www.indianacrylics.com पर भी उपलब्ध है।

कट ऑफ विधि 23 रितंबर, 2023 को पौतिक विधि या डिपैटरिलाइन्ड रूप में शेयरधारक सदस्य सुचना में तय किए सामान्य और विशेष व्यापार पर सेंट्रल डिपॉनिटरी सर्विसेन (इडिया) लिपिटेड (सीडीएसएल) के इलैंक्ट्रॉनिक बोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपने बोट इलैंक्ट्रॉनिकली डाल सकते हैं। कोई व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बना है तथा कट ऑफ तिथि

अर्थात 23 रितंबर, 2023 को शेयरधारक है वो रिपोट ई-वोटिंग के लिए एजीएप सुचना में वर्णित अनुसार निर्देशों का अनुपालन कर सकते हैं। यदि सदस्य रिपोट ई-बोटिंग के लिए सीडीएसएल के साध पहले से पंजीकत है वो रिपोट ई-वोटिंग के पाध्यप से वर्तपान यूजर आइडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है। सदस्य रिपोट ई-बोटिंग के पाध्यप से बोट का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम मैं भाग ले सकत


है परंतु एजीएम में दोबारा बोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोनों विभियों द्वारा बोट डाले जाने की रिश्वति में, रिमोट ई-बोटिंग द्वारा डाले गए बोट को अंतिम विचारा जाएगा।

७. सदस्यों को सुचित किया जाता है कि (क) रिमोट ई-बोटिंग 27 सितंबर, 2023 को प्रातः 9.00 बजे शुरू होगी तथा 29 सितंबर, 2023 को सायं 5.00 बने बंद होगी। (ख) दिनांक 29 सितंबर, 2023 को सायं 5.00 बजे के बाद इलैक्ट्रॉनिक बिधि के पाध्यप से बोटिंग की अनुपति नहीं दी जाएगी। (ग) इलैक्ट्रॉनिक विधि के पाध्यप से वोटिंग से संबंधित किसी पूछताछ की स्थिति में सदस्य फ़ीक्बेटली आरवड क्वेश्चन्स ("एफएक्य्") को देख सकते हैं और www.evotingindia.com के डाउनलोड सैक्शन में उपलब्ध ई-बोटिंग मैन्युबल को देखें या टोल फ्री नं. 1800225533 पर संपर्क करें या श्री सकेश दलवी. वरि. प्रबंधक, सीडीएसएल से ईपेल: helpdesk.evoting @ odslindia.com टेली. 022-23058542/43 पर संपर्क करें।

कंपनील एक्ट, 2013 तथा इसके अधीन लागू नियमों की भारा 91 के अनुवर्ती, कंपनी के सदस्यों का रिजरटर तथा शेयर ट्रांसफर बुक वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के उद्धेश्य से 24 सितंबर, 2023 से 30 सितंबर, 2023 (दोनों दिनों को मिलाकर) बंद रहेगी।

> कृते इंडियन अक्रिलिक्स लिपिटेड भवनेश के गुप्ता, जीएम तथा कंपनी सचिव

दिनोक: 26.08.2023 एफसीएस-3255



फोन नं.: 011-23313177, Fax: 23701123, वेबसाइट: www.stclimited.co.in

सदस्यों को 67वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना,

खातों के बंद होने एवं ई-वोटिंग की जानकारी

यह हमारी दिनांक 25 अगस्त, 2023 की पूर्ववर्ती सूचना से आगे है, जिसके द्वारा एसटीसी ऑफ इंडिया लिमिटेड ("दि कंपनी") के सदस्यों को सुचित किया गया था कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों और उसके तहत नियमों और कारपोरेट मामले ("एमसीए") मंत्रालय द्वारा उनके परिपत्र सं. 2 / 2022 दिनांक मई 05, 2022 के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 20 / 2020 दिनांक 05 मई, 2020 के अनुसार सामान्य परिपत्र संख्या 14 / 2020 और 17 / 2020 क्रमशः दिनांक 08 अप्रैल, 2020 और अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या के साथ पठित 02 / 2021 दिनांक 13 जनवरी 2021 और सामान्य परिपन्न संख्या 02 / 2022 दिनांक 5 मई 2022 और सामान्य परिपत्र संख्या 10 / 2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 और परिपत्र संख्या सेबी / एचओं / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई, 2020, परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांक 15 जनवरी 2021, परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/ सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022, और सेबी/एचओ/सीएफडी/ पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी ("सेबी परिपन्न") के अनुपालन में, एक आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों ("ओएवीएम") की सुविधा के माध्यम से वीरवार, 21 सितम्बर, 2023 को पूर्वाहन 11:30 बजे कंपनी की 67वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने का निर्णय लिया गया था।

67वीं वार्षिक आम बैठक की राधना और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ, ई-वॉटिंग सहित वीसी/ओएवीएम की सुविधा के माध्यम से 67वीं वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के लिए लॉगइन विवरण उन सभी सदस्यों को ई–मेल के माध्यम से सोमवार, दिनांक 28 अगस्त, 2023 को भेजे गए हैं, जिनके ई–मेल पते कंपनी अथवा रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट अथवा उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के अनुसार अपने संबंधित डिपॉजिटरी भागीदारों ("डीपी") के साथ पंजीकृत हैं, और यह कंपनी की वेबसाइट (www.stclimited.co.in), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com और www.nseindia.com) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड

(''सीडीएसएल'') की वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर भी उपलब्ध हैं। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014, सेबी (एलओडीआर) विनियम के विनियम 44. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक-2 और एमसीए परिपत्रों के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में 67वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लेखित सभी संकल्पों पर सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई गयी दूरस्थ वोटिंग (एजीएम से पूर्व) और ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से अपना

मतदान करने की सुविधा सदस्यों को उपलब्ध कराई गयी है। दूरस्थ ई-वोटिंग सोमवार, 18 सितम्बर, 2023 (पूर्वाह 09:00 बजे) प्रारंभ होगी और बुधवार, 20 सितम्बर, 2023 (अपराह 05:00 बजे) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान सदस्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं। इसके पश्चात दरस्थ ई-वोटिंग माड्यल को वोटिंग

हेत् सीडीएसएल द्वारा बंद कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों ने वार्षिक आम बैठक से पहले दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर दिया है, वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों ("ओएवीएम") की सुविधा

के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं, किंतु वे वार्षिक आम बैठक के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से पुनः मतदान करने के हकदार नहीं होंगे। किसी सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर एक बार अपना मतदान करने के पश्चात, बाद में उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। दूरस्थ ई-वोटिंग, वार्षिक आम बैठक में जुड़नें और वार्षिक आम बैठक के

दौरान हैं-वोटिंग से संबंधित विस्तृत विवरण 67वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए हैं। श्रीमती अर्चना बंसल, मैनेजिंग पार्टनर मैंससे ब्लाक एंड को. (सीओपी नंबर 11714) को संपूर्ण ई—वोटिंग प्रक्रिया की उचित एवं पारदर्शी तरीके से संवीक्षा के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है। सदस्यों को मताधिकार, बधवार, 13 सितम्बर, 2023 (अंतिम तिथि) पर कंपनी की पूर्ण भगतान इविचटी शेयर पूंजी में उनके पास इविचटी शेयर के अनुपात में होंगे। जिस व्यक्ति का नाम अंतिम तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपोजिट्टीज द्वारा रखे गए लाभांवित मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही एजीएम में भाग लेने, दूरस्थ ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा लेने का हकदार होगा। जो व्यक्ति अंतिम तिथि को सदस्य नहीं

रहता है, वह इस सूचना को केवल जानकारी के उद्देश्य से माने। जो व्यक्ति 67वीं एजीएम की सूचना के इलेक्ट्रानिक रूप से प्रेषण की तिथि के पश्चात शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है और अंतिम तिथि को शेयर रखता है, वह 67वीं एजीएम की सूचना में उल्लेख अनुसार अनुदेशों का पालन करते हुए अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com

पर अनुरोध भेज कर लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि आपने कंपनी / डीपी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है तो आप

ई-वोटिंग हेत् लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए कृपया निम्नोक्त अनुदेशों का पालन करें : कृपया फोलियो नंबर, शेयर धारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी (सामने और पीछे), पैन कार्ड की रव-सत्यापित स्कैन की गई प्रति, आधार कार्ड की रव-सत्यापित रकैन की गई प्रति अथवा पते के प्रमाण के रूप में कोई अन्य दरतायेज धारिता जैसे आवश्यक विवरण ई—मेल के माध्यम से कंपनी (cs@stclimited.co.in)/

आरटीए (admin@mcsregistrars.com) ई—मेल आईडी पर उपलब्ध कराएँ। कृपया डीमेट खाता विवरण (सीडीएसएल का 16 अंकों का लामार्थी आईडी अथवा एनएसडीएल का 16 अंकों का डीपीआईडी+सीएलआईडी), नाम, क्लाईट मास्टर अथवा समेकित खाता विवरणी की प्रति, आधार कार्ड की ख-सत्यापित स्कैन की गई प्रति। अथवा पत्ते के प्रमाण के रूप में कोई अन्य दरतावेज कंपनी (cs@stclimited.co.in) /

आरटीए (admin@mcsregistrars.com) ई—मेल आईडी पर उपलब्ध कराएँ । इसके अलावा, अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (एलओडीआर) विनियम के विनियम 42 के अनुसरण में, सदस्यों के रजिस्टर और कंपनी की शेयर हस्तांतरण वहियाँ वीरवार, 14 सितम्बर, 2023 से वीरवार, 21 सितम्बर, 2023 (दोनों

वोटिंग का परिणाम एजीएम के समापन से 48 घंटे के अंदर अर्थात शनिवार, 23 सितम्बर, 2023 को अथवा उससे पूर्व घोषित किया जाएगा और इस प्रकार घोषित किया गया परिणाम समेकित संवीक्षक रिपोर्ट कें साथ कंपनी की वेवसाइट www.stclimited.co.in) और सीडीएसएल की वेवसाइट (www.evotingindia.com) पर उपलब्ध कराई जाएगी।

यदि आपको एजीएम में शामिल होने में तथा ई-वोटिंग प्रणाली के द्वारा ई-वोटिंग करने के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप www.evotingindia.com पर सहायता खंड के तहत

उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों ("FAQs") और ई-वोटिंग मैन्अल देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं या श्री राकेश दाल्वी, वरिष्ठ प्रबंधक (हेल्पलाइन नं: 022-23058542, 1800 22 5533) से संपर्क कर सकते हैं।

विपिन त्रिपाठी

कंपनी सचिव

स्थान : नर्व दिल्ली

दिनांक : 28 अगस्त, 2023

OSBI

प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग -।।, स्टेट बैंक ग्लोबल आईटी सेंटर, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर

07 वर्ष की अवधि के लिए एसएमएस गेटवे समाधान की खरीद, स्थापना, कमीशर्निंग और रखरखाव के लिए प्रस्ताव का अनुरोध (आरएफपी)

आरएफपी नं.: SBI/GITC/Platform Engineering-II/2023/2024/1034

दिनांक: 28.08.2023 भारतीय स्टेट बैंक ने 07 वर्ष की अवधि के लिए एसएमएस गेटवे समाधान की खरीद, स्थापना,

कमीशनिंग और रखरखाव के लिए आरएफपी जारी किया है। कृपया बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in या bank.sbi पर 'प्रोक्योरमेंट न्यूज 'देखें। स्थान: नवी मंबई हस्ताक्षर/ दिनांक: 29.08.2023 उप महाप्रबंधक (पीई - 11)

यू.पी. को-आपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडेरेशन लि., बाबौता डिस्टिलरी यूबिट, बाबौता सहारबपुर

ई-निविदा सुचना

इस आसवनी द्वारा कास्ट स्टील सूलूस वाल्ब साइज 6 इंच, क्लास 300 हैवी उच्चटी, हाई प्रेसर, किर्लोस्कर / एल०एण्ड टी० मेक की आपूर्ति करने हेत् अनुभवी / व्यापार कर में पंजीकृत फर्मों से ई-टैण्डर के माध्यम से दिनांक 05-09-2023 तक निविदाये आमंत्रित की जाती है। निविदा शुल्क रू० 590 / – एवं घरोहर धनराशि रू० 6,000.00 आन लाइन जमा कराकर रसीद अपलोड करना अनिवार्य है। अन्य विस्तृत विवरण दिनांक 28-08-2023 को साँय 6.30 बजे से www.etender.up.nic.in पर उपलब्ध है अधोहस्ताक्षरी को किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को वगैर कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। मो0नं0 7880888850, यू०पी० को-आपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडेरेशन लि०, नानौता डिस्टिलरी यूनिट, नानौता सहारनपुर । बैंक का नामः पंजाब नेशनल बैंक, पाण्डोखेड़ी, नानौता

खाता सं0 3726000102068647, आई0एफ0सी0 कोड— PUNB0372600

U.P. State Industrial Development Authority UPSIDA Complex, A-1/4, Lakhanpur, Kanpur- 208024 Website: www.onlineupsida.com

of Industrial Plot No. 16/2A (Total Area-18485.00sqm.) in Part Layout Plan of Industrial Area Site-4, Sahibabad, Ghaziabad.

Pradesh State Industrial Development Authority (UPSIDA) situated in District Ghaziabad

Uttar Pradesh State Industrial Development Authority, C-2, Mahalaxmi Mall, 4" Floor RDC Raj Nagar, Ghaziabad between 10:00 am to 5:00 pm on all working days till the date mentioned in Para 3 hereafter as well as website: www.onlineupsida.com Objections and Suggestions are hereby invited with respect of the Draft Amended

Objections and suggestions shall be sent in writing to the office of Regional Manager, UPSIDA at C-2, Mahalaxmi Mall, 4" Floor RDC Raj Nagar, Ghaziabad within 15 days from the date of publication of this notice mentioning subject as "Regarding Public Objection/ Suggestion on Draft Amended Layout Plan for Industrial Area Site-4, Sahibabad, Ghaziabad." Any person making the Objections or Suggestions

> (Regional Manager) U.P. State Industrial Development Authority

Китсо

सीआईएन: L60221DL2001PLC112167 पताः 508,5वी मीजल, ज्योति शिखर टॉवर, जिला केंद्र,

जनकपुरी, नहें दिल्ली-110058 | फौन नंबर 0124-4702300 हीलः cs@ritcologistics.com । वेबसहरः www.ritcologistics.com

सार्वजनिक सूचना : 22वीं वार्षिक आम बैठक

सुवित किया जाता है कि कॉमोरेंट कार्य मंत्रातय द्वारा जारी सामान्य मरिमत्र संख्या 20/2020 5 मई. 2020. मरिमत संख्या 02/2022 दिनांक 5 मई. 2022 ("एमसीए मरिपत्र") के साम पठित कंपनी अधिनियम. 2013 के लागू प्रावधानी और उसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी मरिमत्र 13 मई. 2022 ('सेर्च मरिपत्र') (सामृष्ठिक रूप से परिपत्र के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में रिटको लॉजिरिटक्स लिपिटेड ('कंपनी') को 22वीं वार्मिक आप बैठक (एजीएम) वीडियो कॉन्फ्रिंस ('बीसो')/अन्य अंडियो विज्ञुअल साधनीं ('ओएबीएम' के पाध्यप से आयोजन स्मल पर सदस्यों की भौतिक उपस्मिति के बिना बुधवार. 27 सिनंबार, 2023 की दीफरर 01:00 बजे आयोजित की जाएगी जिसमें सर्वोद्धह संस्थाओं की अपनी वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक पोड में भेजने के तिए भी अनुमति दी गई है। उक्त बैठक का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, 308, 5वीं पंजिल, ज्योति शिखर टॉवर, डिरिट्क्ट सेंटर, जनकपुरी, नई हिल्ली-110058 पाना जाएगा।

सदस्य आगे ध्यान दें कि उपयुक्त परिपजों के अनुसरण में और सरकार की गो-ग्रीन महत्त को आगे बद्धाने के लिए, 22वीं एजीएम की सबना और विनीय विवरणों और अन्य वैधानिक रिपोरों के साथ जारी विनीय वर्ष 2022 - 23 की वार्षिक रिपोर्ट केवल उन्हों सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाएगा जिनके ईं-पेल पने रजिस्टार और टांसफर ष्ट्रवेंट ("रजिरहार")/डिमॉजिटरो मर्टिसिमेंट्स ("डीमो"), जैसा भी मामला हो, के मास पंजीकृत हैं। सदस्य केवला बीसी/ओस्बीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ते सकते हैं. जिसका विवरण कंपनी द्वारा बैठक की सुबना में प्रदान किया जाएगा। बौसी/ओएबौएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनयम. 2013 की धारा 103 के बद्धन कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार, कंपनी के सदरमों का रिजरटर और शेयर ट्रांसफर बुक वार्षिक अगम बैठक के प्रयोजन के लिए गुरुवार. 21 सिलंबर, 2023 से बुधवार, 27 सिलंबर, 2023 (दोनों दिन शामिल)

सदस्य यह भी ध्यान दें कि कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम के नीटिस में निधीरित प्रस्तावों पर अपना वीट डालां में सक्षम बनाने के लिए लिंक इनटाइम इंडिया प्राह्वेट लिफ्टिड की इं-वोटिंग सेवाए प्रहम करेगी। कंपनी ने रिमोट ई-बोटिंग या एजीएम के दौरान ई-बोटिंग द्वारा मतदान करने के लिए सदस्यों को पात्रता निर्धारित

करने के लिए बुधवार. 20 सितंबर. 2023 को 'कट-ऑफ लिमि' निधारित की है। सदस्य ध्यान दें कि रिपोट ई-बोर्टिंग अवधि रविवार. 24 सितंबर. 2023 (सुन्नह 9:00 बजे) (भा.मा.स.) की शुरू होगी और मंगताबार, 26 सिनंबार, 2023 (शाप 5:00 बजे) (भा.मा.स.) को समाप्त होगी। इसके अतिरिक्त, कंपने

ई-मेल पते का पंजीकरण जिन सदस्यों ने अभी तक अपने हूं-पेला पते पंजीकृत नहीं किए हैं. उनसे अनुरोध है कि वे एजीएम और वार्षिक

स्वीर्य के दौरान बोट डालने के लिए ई-बोर्टिंग प्रमाली प्रदान करेगी।

रिपोर्ट 2022-23 की सुबना इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए और ई-बोर्टिंग रिपोर के लिए लॉगिन आईडी और पासवडं प्राप्त करने के लिए अपने हूं. पेला पने पंजीकृत करने के लिए नीवे उल्लिखन प्रक्रिया का पालन करें! डॉफैंट मोड में रखे गए शेयरों के मामले में, कुमया डोमोआईडो-सीएलआईडो (16 अंक डोमीआईडो । सीम्लाआहंडी या 16 अंक लाभार्मी आहंडी), नाप, अहक पास्टर या संपेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (स्वय सत्यापित स्कैन) प्रदान करें पैन कार्ड की प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) es@riteologies.com मर भेजें।

आप आगे कंपनी को cs@ritcologistics.com पर लिख सकते हैं। सदस्य ध्यान दें कि स्वीर्म के दौरान रिमोट हैं वोटिंग हैं वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया का स्वीर्म के नोटिस में भी उल्लेख किया गया है। स्वीरम की सूबना और वर्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट याने www.ritcologistics.com. स्टॉक एक्सकेंग्रों की वेबसाइट जहां कंपनी के शेयर सुबीवाद हैं. यानी बीएसई तिपिरेड और नेशनत रर्राक एक्सकेंग्र ऑफ इंडिया तिपिरेड को वेबसाइट क्रपश: www.bseindia.com तम www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

उपरोक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों को जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और समय-समय जारी एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में है। रिटको लॉजिस्टिक्स लिपिटेड के लिए

दिगांकः २१/०७/२०२३ स्थानः दिल्ली

गीतिका अरोडा कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

श्याम टेलीकॉम लिमिटेड सीआईएन : L32202RJ1992PLC017750

पंजीकृत कर्म्यक्रय : स्थाप डाक्स ३ आप्रपाली सर्कल वैशाली नगर जयपुर - ३०२०२१ राजस्थान भारत दूरमाष: 91-141-4025631, फैक्स: 91-141-5100310 निगमित कार्यांस्य : ए - ६० नारायणा औद्योगिक क्षेत्र फेज -। नई दिल्ली - 110028

दूरमाष: 91-11-41411071 / 72, फैंक्स : 91-11-25792194 वेक्साइट : www.shyamtelecom.com, इमेल : investors@shyamtelecom.com

30वीं (तीसवीं) वार्षिक आम बैठक से संबंधित जानकारी

१यान टेलोकॉन लिमिटेड ('कंपनो') को 30वों (लोसवों) वार्षिक आम बैठक ("एजोएन") गुरुवार 28 सितंबर, 2023 को अब 0100 बजे आईएसटो वर बोडियो कॉन्कॅसिंग ("बोसो") 🗸 अन्य ऑडियो विज्ञअल सधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगो. जिस बैठक में कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत विरिधित नियमावलों के साथ पठित लाग प्रावधानों तथा एनसीए जनरल सर्व्लर नंबर 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 जो एनसीए जनरल सर्व्लर नंबर 14 / 2020 दिनांक 08 औज. 2020; 17 / 2020 दिनांक 13 औज. 2020; 20 / 2020 दिनांक 05 निवास, अभोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्पाण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन निई 2020; 19/2021 दिनांक 08 दिसंबर 2021 और 02/2022 दिनांक 05 नई 2022 ("एनसीए अधिनियम, 2002 ("कियात अधिनियम") के तहत अवांस फाइनेंशियल सर्विसेज लिपिटेड का वरिवन्न') के साथ विठेत. और सेबो (सूचोबद्धता दाधिस्व और प्रकटोकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली 2015 ("सुबोब इत। विनियमावली") जो कि सेबी परिपन्न दिनांक 12 मई 2020; 15

|जनवरी 2021; 13 मई 2022 एवं 05 जनवरी, 2023 ['सेबो परिपन्न'} के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित ध्यवसायों का संचालन किया जायेगा। उपरोक्त एमसोए और सेबो परिपन्नों के अनुपालन में. विसीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजोएन को स्वना कंपनों के उन सभी सदस्यों को ई-मेल के मध्यम से भेजों जाएगी जिनक। नाम शुक्रवार, 25 अगस्त, 2023 को ध्यावसायिक धंटे बंद होने के समय पर सदस्यों के रिजिस्टर में दिखाई देग। और जिनके ईमेल पते कंपनों/कंपनों के रिजस्ट्रार और शेयर ट्रांसफरएजेंट. इंडस वोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड / डिवॉजिटरी वार्टिसिवेंट के साथ वंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त. उपरोक्त नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनो को वेबसाइट www.shyamtelecom.com और दोनों स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् क्रमश बोएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com एवं

उपलब्ध कराई जाएगी। अधिनियम को धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2015 के नियम 20 और सुयोकरण विनियमों के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुवालन में, कंवनी एजीएम की सुयना मे निर्धास्ति समस्त ध्यवसायों पर कंपनी के सभी सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगो। इसके असिरिक्त, डोमैटरियलाइव्ड या पौतिक लग्र में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अवनो ई-मेल आईडो वंजोकृत नहीं को है. उनके छारा एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और ई-बोटिंग के तरोके. लॉगिन आईडो और पासवर्ड से संबंधित निर्देश और प्रक्रियायें. एजोएन 🛮 कर्जदारो/लहकर्जदारो/जपानवियो/अंधककर्जाओं को तथा जनतापान्य को तृचित किया जाता है कि को सबना में उपलब्ध करायो जायेंगो।

www.nseindia.com वर और एनएसडोएल को वेबसाइट www.evoting.nsdl.com वर पी

ई-मेस पताँ को पंजीकृत करने /अध्यतन करने करने की प्रविधि : 🗑 भौतिक रूप में रखे गए शेयर कृपया पैन और केवाईसो विवरणों को अध्य प्रासंगिक प्रपन्नों

और प्रलेखों के साथ विधिवत प्रस्तुत एवं इस्ताक्षरित निर्धारित फॉर्म आईएसआर-न (कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध) के साथ जमा करके कंपनों के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट इंडल पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड, जी-85, बालो नगर, नई दिल्ली-110015 पर shankar.k@indusinvest.com/pritig@indusinvest.com पर ईमेल के ୩) डोमैट मोड में रखे गए शेयर अवने डिवॉजिटरों वार्टिसिवेंट झारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार

अवना ई-मेल वता वंजीकत / अद्यतन करने के लिए कृवया अवने डिवॉजिटरों वार्टिसिवेंट से किसो भो प्रश्न को स्थिति में. सदस्यगण कंपनो के कंपनो सचिव से फोन नंबर 011-41411071

या ईमेल shyamtelecom.cs@gmail.com पर या कंपनो के रिजेस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट. इंडस वोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड से ईमेल आईडो shankar.k@indusinvest.com/वर संवर्क कर सकते हैं। rs.kushwaha@indusinvest.com या 011-47671217 /47671214 पर कॉन करें। बोर्ड के आदेशानुसार कृते स्थाम टेलीकॉम लिमिटेड

हस्ता./-

कीर्वि केसखानी कंपनी सचिव

OSBI

आईटी-ईपे एवं पीजी विभाग, एसबीजीआईटीसी, बेलापुर, सेक्टर 11, सी.बी.डी बेलापुर, नवी मुंबई - 400614

शुद्धिपत्र-।

आरएफपी क:: SBI/GITC/ePay&PG/2023/2024/1027 दिनांक: 07.08.2023 कृपया स्टेट बैंक डेबिट और प्रीपेड कार्ड के लिए एक्सेस कंट्रोल सर्वर (एसीएस) या जारीकत प्रमाणीकरण सर्वर (आईएएस) सेवाएं दिनांक 07.08.2023 की खरीद के लिए आरएफपी देखें. शक्किपत्र-। और बोली-पूर्व प्रश्नों पर बैंक की प्रतिक्रिया अपलोड की गई है और इसे बैंक की वेबसाइट https://bank.sbi पर प्रोक्योरमेंट न्यूज़ के तहत देखा जा सकता है. स्थान: नवी मुंबई

तिथि: 29.08.2023 उप- महाप्रबंधक (आईटी-ईपे एवं पीजी)

स्टील स्ट्रिप्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड CIN: L27109PB1973PLC003232 पंजी कार्यालयः गाव-सोपलहेडी/लेहली, डाकखाना दप्पर, तहसील डेराबरसी, जिला मोहाली

> 50वीं वार्षिक सामान्य बैठक, ई-वोटिंग जानकारी तथा किताब बंदी की सूचना

(पे.)-140506, टेलीफोन: +91-172-2793112, फैक्स: +91-172-2794834

हंमेलः ssl_ssg@glide.net.in, वेबसाहरः www.ssilindia.net

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि:-

कंपनी की 50वीं वार्षिक सामान्य बैठक (50वीं एजीएम) सूचना दिनांक 10.08.2023 में तय अनुसार व्यापार को करने के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय गांव सोपलहेड़ी/लेहली, डाकखान दणर, तहसील डेराबरसी, जिला पोहाली (पंजाब) में शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को अपराइ 11.30 बजे आयोजित होना अधिसूचित है।

50वीं एजीएम (सूचना) की सूचना और विजीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां राभी सदस्यों को इलैक्ट्रॉनिक विधि में पंजीकृत पतों पर भेज दी गई हैं जिनकी ई-मेल आइडी कंपनी/डिपॉनिटरी पार्टिसिपेट्स के साथ पंजीकृत है। भेजने का कार्य 25 अगस्त, 2023 के पुरा कर लिया गया है और जो कंपनी की वेबसाइट www.ssilindia.net पर भी उपलब्ध है। कट ऑफ तिथि 22 रितंबर, 2023 को भौतिक विधि या डिपैटरिलाइन्ड रूप में शेयरधारक सदस्य स्चन। मैं तय किए सामान्य और विशेष व्यापार पर सेंट्रल डिपॉनिटरी सर्विसेन (इंडिया) लिपिटेड (सीडीएसएल) के इलैंड्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपने बोट इलैंड्ट्रॉनिकली डाल सकते हैं

कोई व्यक्ति जो बैठक की सुचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बना है तथा कट ऑफ तिथि अर्थात 22 सितंबर, 2023 को शेयरभारक है वो रिपोट ई-वोटिंग के लिए एजीएम सुचना में वर्णित अनुसार निर्देशों का अनुपालन कर सकते हैं। यदि सदस्य रिपोट ई-बोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से पंजीकृत है वो रिपोट ई-वोटिंग के पाध्यप से वर्तपान यूजर आहडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है। रादस्य रिपोट ई-बोटिंग के पाध्यप से बोट का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम मैं भाग ले सकत

है परंतु एजीएम में दोबार। बोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोनों विभियों द्वारा बोट डाले जाने की रिश्रित में, रिमोट ई-बोटिंग द्वारा डाले गए बोट को अंतिम विचारा जाएगा। ं सदस्यों को सूचित किया जाता है कि (क) रिपोट ई-वोटिंग 26 सितंबर, 2023 को प्रातः 9.00 बजे शुरू होगी तथा 28 सितंबर, 2023 को साथ 5.00 बजे बंद होगी। (ख) दिनांक 28 सितंबर, 2023 को सायं 5.00 बने के बाद इलैक्ट्रॉनिक विधि के पाध्यप से वोटिंग की अनुपति नहीं दी जाएगी (ग) इलैक्ट्रॉनिक विधि के पाध्यप से बोटिंग से संबंधित किसी पूछताछ की रिश्रति में सदस्य फ्रीक्वेटली आरव्ह क्वेश्चन्स ("एफएक्यू") को देख सकते हैं और www.evotingindia.com

cdslindia.com टेली. 022-23058542/43 पर संपर्क करें। कंपनील एक्ट, 2013 तथा इसके अधीन लागू नियमों की धारा 91 के अनुवर्ती, कंपनी के सदस्यें का रजिस्टर तथा शेयर ट्रांसफर बुक वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के उद्देश्य से 23 सितंबर 2023 से 29 सितंबर, 2023 (दोनों दिनों को मिलाकर) बंद रहेगी।

के डाउनलोड सैक्शन में उपलब्ध ई-बोटिंग पैन्युवल को देखें या टोल फ्री नं. 1800225533 पर

रांपर्क करें या श्री राकेश दलवी, वरि. प्रबंधक, सीडीएसएल से ईपेल: helpdesk.evoting 🛭

कृते रटील रिट्रप्स इफ्रास्ट्रक्चर्स लिपिटेड दिनांक: 26.08.2023 रोजय गर्ग, प्रबंध निदेशक, रथानः चंडीगढ (डीआईएन-वववउव १५५)

> माबेल सिटी इंडिया लिमिटेड (पूर्व में पी जी इंडस्ट्री लिमिटेड के नाम से जाना जावा था)

र्चज्ञकार्यालय : ए-३०, +-11, दूसरी मंजिल, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली -110048 सीआईएक एला ४८०० डी एल १००० पी एल सी ०५६४२१ pgindustryltd@gmail.com www.pgil.com

अपनी वार्षिक भाग बेठक की सूचना

(परिपन्न संख्या 20/2020 दिनांक 05.05.2020 के अनुसार) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने अपने परिपन्न दिनांक वर्ष दिसंबर, 2021, वर्ड मई, 2022 14 दिसंबर, 2022 और 28 दिसंबर, 2022 के साथ पठित परिपन्नों 13 जनवरी, 2021, 5 मई 2020, 8 अप्रैल 2020 और 13 अप्रैल, 2020 के मध्यम से वीडियो कॉ-फेंस या अ-ऑडियो-बिजुअल मध्यमों (ओएबीएम) के मध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी इन परिपन्नों और कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी (सुधीबद्धता दायिस्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की आगामी एजीएन

शुक्रवार, 22 सितंबर 2023 को शाम 04:00 बजे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित के

उपरोक्त परिपन्नों के अनुसार, विनीय वर्ष 2022-2023 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएन कं सूचन। केरल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड हार। भेजा जाना है जिनकी ई-मेल आईडी पहले से ही कंपनी/डिवॉजिटरी के साथ पंजीकृत है। कंपनी पहले की तरह ही अपने सर्भ

सदस्यों को ई-वोटिंग और रिमोट ई-वोटिंग सुविधा भी प्रदान कर रही है। यदि आपकी ईमेल आईडी पहले से ही कंपनी/डिवॉजिटरी के साथ वंजीकृत है, तो विनीय वर्ष 2022-2023 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएन की सुधना और ई-बोटिंग के लिए लॉगिन विवरण आवक्रे वंजीकृत ईमेल वर्ते वर भेजा जाएगा। यदि आवमे कंवनी/डिवॉजिटरी के सध्य अपनी ईमेल आईडी फंजीकृत नहीं की है, तो कृषया वितीय वर्ष 2022-2023 के लिए वार्षिक रिवोर्ट प्राप्त करने और ई-बोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अवनी ईमेल आईडी कंजीड़न करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।

पौक्कि कंपनी के रजिरट्रार और ट्रांसफर एजेंटों एमएएस सर्विसेज लिपिटेड को info@masserv.com पर ईमेल पत्ते को पंजीकृत करने के लिए फोलियो नंबर शेयरधारक का नाम शेयर प्रमाणपत्र की रकैन की गई प्रति (आगे और पीछें) पैन (पैन कार्ड की खप्रमाणित रकैन की गई प्रति) आधार (आधार कार्ड की खप्रमाणित रकैन की गई प्रति) प्रदान करने का अनुरोध भेजें।

कृपया अपने बैंक विवरण को मूल रद, वेक के साथ हमारे आरटीए (यानी एमएएस सर्विसेज लिपिटेड टी-34 रूपरी पंजिल ओखाला औद्योगिक क्षेत्र फेज-2 नई दिल्ली -110020 को पत्र के साथ फोलियो नंबर का उल्लेख करते हुए यदि पहले से पंजीकृत नहीं हैं।

कृपया इसे 15/09/2023 को या उससे पहले अपडेट करें

कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से सपर्क करें और डीपी हारा बताई गई

प्रक्रिया के अनुसार अपना इंपेल पता पंजीकृत करें। कृपया इसे 15/09/2023 को या उससे पहले अपडेट करें

विश वर्ष 2022-2023 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सुधना, कंपनी की वेबसाइट www.pgil.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। वीसी / ओएवीएन के मध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उदेश्य से गिना जाएगा।

कृते मार्यल सिटी बंडिया लिमिटेड साकेत डालीस्य

रवानः नर्व दिस्ती दिकांक: 29-08-2023 प्रयंश निदेशक (डीजार्वएन : 00083636)

पंजीकत एवं कॉपेरिट कार्यालय पता : फल्कम बिजिनेस सेंटर. 001 एवं 002, ए विंग, त्यात रीजेंसी होटल के आगे, सहार रोड अथेरी (पूर्व), पुष्वई-400 ०२२, पहाराष्ट

अवास फाइनीशयल सविसेज लिमिटेड



कब्जा सूचना

(अबल सम्पति हेत्)

अपिकृत प्राप्तिकारी होने के नाते एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पिटत भारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कर्नदारों/सहकर्नदारों/जगानितयों/बंधककर्ताओं क्रमशः (i) श्री श्याम बिहारी शिक्षा समिति (ii) मंजू (iii) कुलदीप चौभरी (iv) महेंद्र सिंह (v) राव सिंह (vi) लखीराम (सामृहिक रूप से 'कर्नदार' सन्दर्भित) से उपरोक्त मांग सुचना में उल्लिखित 20 पई, 2023 तक राशि और 26 पई, 2023 तक भावी ब्यान, दण्डात्पक ब्यान, प्रभारों, लागतों आदि का भुगतान कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहते हुए ऋण खात सि. DELCS00037167 तथा DELCS00167649 ("ऋण खाता") में 29.05.2023 के एक पाँग सुचना जारी की थी। कर्जदार/सहकर्जदार/बंधककर्ता ऋण खाता सं. 26 मई, 2023 तक

(i) श्री श्याम बिहारी शिक्षा समिति (ii) पंजू (iii) कुलदीप चौभरी (iv) महेंद्र सिंह	DELCS 00037167 & DELCS	क १६,5६,18६/- (रुपये अठारह लाख अट्ठावन हजार एक सौ अट्ठासी मात्र)
(v) राज सिंह (vi) लखीराप	00167649	
उपर्युक्त कर्जदार द्वारा राशि का पुनार्भुगत	ान करने में असफल	रहने के कारण एरहार

अधीहरताक्षरी ने प्रतिभूत हित (प्रवर्वन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धार 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शब्दियों के उपयोग में यहाँ अनुसूचित अभाग सम्पत्ति ("अभाग सम्पति") प 26 आगरत, 2023 को कम्प्रजा कर लिया है। शिरोष रूप से कर्जदारों/सहकर्जदारों/जपानतियों/अंधककर्ताओं को तथा जनसामान्य को एउडार सम्पति वे

साथ कोई लेन-देन न करने की चेतायनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई लेन-देन कुल राशि र 18,58,188/ - (रुपये अठारह लाख अङ्ठायन हजार एक ती अङ्ठाती मात्र) तथा उपर्युक्त ऋग खाते : अन्तिम भूगतान तथा/अथवा चसुली की तिथि तक उस पर ब्याज के लिए अवांस फाइनेंशियल सर्विसेट लिपिटेड के प्रभार का शिषय होगा। प्रतिभूत आरितयों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के सम्बन्ध

कर्नदारो/राहकर्नदारो/जपानवियो/अंधककर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा (13) की उपधारा (8) वै प्राथधानों की और अकृष्ट किया जाता है। अनाल राष्प्रित का विधरण खाता संख्या ३६६, खरारा नं. १४०६ पिन, गांच - खरीत, शाहपुर रोड, कोसी कलियान, तहसील खाता, जिल

मधुरा, उत्तर प्रदेश 281403 में रिश्वा श्री श्याम बिहारी जुनियर हाई स्कूल की भूमि और भवन में रिश्वा संपि के रामस्त भाग पर पहाला और विशेष प्रभार। सीमाएं निम्नीलिखत हैं: सीमाएं: - उत्तर - भूमि भूपराम, पूर्व सङ्क शाहपुर रोड, पश्चिम - भूमि भूष राम, दक्षिण झ कर्जदार की संपत्ति। तिथि : 26 उगास्त, 2023

स्थान : कोसी, पथुरा अधिकृत प्राधिकारे कृते अवांस फाइनेशियल सर्विसेज लिपिटेः

ADITYA BIRLA

প্রাক্ত কথাতের : স্বাহরত কথাত কথাতের, ব্যবহুত, গুরুষর - 362266, য়াব্রা কথাতির : যুক্তি জ. 710 ए. 7वां तल,

आदित्य बिङ्गला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कॉर्पेटिट पार्क, बी-109, संजय खेस, आगरा-282002

परिशिष्ट IV (प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 का नियम 8(1) देखी। अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतू)

जबकि, अधोहरताक्षरकर्ता ने आदित्य बिडला हाउसिंग फाइनेस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी

के रूप में कितीय परिसपरितयों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमायली 2002 के नियम 3 के साथ प्रित धारा 13(12) के अतर्गत प्रदस्त शक्तियों के प्रयोगातर्गत, एक **माँग** सुवना दिनांकित 17.12.2022 निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ताओं नामतः अरुण कुमाए ऐसा तथा मैसर्स अरुण कुमार सीएसपी को, सूचना में ऑकिट शिष्ट रू. 25,84,874.24/- (रुपये पर्व्यास साख चौरासी हजार आठ सौ चौवहरतर एवं चौबीस पैसे मात्र) का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। यूकि वरणकर्तागण निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में किरुल हो युके हैं, अतएव

एतदहारा ऋणकर्ताओं और जनसङ्गारण को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यह इसमे निम्न विकरणित सपस्ति का प्रतिभृति हित (प्रक्तन) नियमायली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अतर्गत उन्हें प्रदस्त शक्तियों के प्रयोगातर्गत 24 अगस्य 2023 को अधिग्रहण कर लिया है। व्हणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदहारा सामान्य रूप में सावधान किय

जाता है कि सपस्ति का लेन-देन न करे तथा सपस्ति का कोई य किसी भी प्रकार का लेन-देन ठ. 25.84.874.24 / — (उपये पर्व्यास साख यौरासी हजार आठ सौ यौवहत्त्वर एवं यौबीस पैसे मृह्न) की एक राशि तथा इस राशि पर व्याज हेत् आदित्य बिडला हाउसिंग फाइनेस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। वरणकर्ताओं का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसपस्तियों के मोधनाध उपलब्ध समय के सदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 8 के प्रावधानों की ओर आमन्नित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

नगर निगम स 5सी/ए पी/पी-153 वालें प्लॉट न 153 के हिस्से पर निर्मित आवासीय गृह के समस्त यह भाग तथा अश जो भृषि पिनजुमला खसरा न 25 पर, अधिमापन 12259 यर गज अर्थात् १०२५० वर्ग मीटर, अर्थात् ११०३ ३१ वर्ग फ्ट, जो अजिन पुरम / अजिल पुरम, नगल अलबतिया, लोडामडी यार्ड तहसील एय जनपद आगरा मे स्थित तथा **निम्नानुसार परिसीमित हैं: स्तर-** प्लॉट न 152 पर संपत्ति, **दिनेण-** प्लॉट न 153 के डिस्से पर संपत्ति, **पूर्व-** प्लॉट न 160 व 161 पर सपरित, परियम- रास्ता 25 फुट योडा एव निकास।

दिनांक : 24-08-2023 त्यान : आगरा

वादित्य विक्सा हाछतिंग फाइनेंस सिनिटेट

ग्लोबस पॉवर जनरेशन लिमिटेड सीआईएन : L40300RJ1985PLC047105

पंजीकृत कार्यातय : स्याम शास्त्र, मुखंब सं. ३. आअपाली सर्कत, वैशाली नगर, जयपुर - 202021. निगमित कार्यासय : ए - ००. नारायणा औद्योगिक क्षेत्र. फ्रेंज - । नई विस्सी - ११००३६ कुलाम : 91-11-41411071/72 फैनस : 91-11-20792194 कॅमेल : glo busedl@gmail.com, वेक्सक्ट : www.gpgl.in

> अवी (अस्तीसवी) वार्षिक आम बैठक से संबंधित जानकारी

म्लोबस पॉयर जनरेशन लिमिटेड (ˈकंपनीˈ} की 38वीं (अड़तीसवी) वार्षिक आम बैठक िएजीएम"} गुरूवार, 28 सिलंबर, 2023 को मध्या 1130 बजे आईएसटी पर वीडियो कॉन्कॅसिंग ("वीसी") / अध्य ऑडियो किजुअल साधनों ("ओएवीएम") के मध्यम से आयोजित की जाएगी| जिस बैठक में कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत विरिधित नियमायली के साथ परित लागू प्रायधानों तथा एमसीए जनरल सर्जुलर नंबर 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 जो एमसीए जनरल सर्जुलर नंबर 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020; 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020; 20/2020 दिनांक 05 मई 2020; 19/2021 दिनांक 08 दिसंबर 2021 और 02 / 2022 दिनांक 05 मई 2022 ("एमसीए परिपत्र") के साथ परित, और सेबी (सुधीबद्धत दायिस्य और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ} विनियमायती 2015 ("सूचीब्रह्नता विनियमायती") जो कि सेबी परिपन्न दिनांक 12 मई 2020; 15 जनवरी 2021; 13 मई 2022 एवं 05 जनवरी, 2023 ("सेबी परिपन्न") के साथ पठित है, के अनुपालन में एजीएन की सूचना में निर्धारित ध्यवसायों का संघालन किया जायेगा।

उपरोक्त एनसीए और सेबी परिपन्नों के अनुपालन में, विशीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएन की सूचना कंपनी के उन सभी सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएगी। जिनका नाम शुक्रवार, 25 अगस्त, 2023 को ध्यावसायिक धंटे बंद होने के समय पर सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देग। और जिनके ईमेल पते कंपनी/कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड/डिवॉजिटरी पार्टिसिवेंट कें साथ पंजीइन्त हैं। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.gpgl.in और स्टॉक एक्सबेंजों अर्थातु बीएसई लिमिटेड की देवसाइट www.bseindia.com एवं एनएसडीएन की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

अधिनियम की धारा 108 और कंपनी (फ्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2015 के नियम 20 और सुबीकरण विनियमों के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी एजीएम की सुबना में निर्धास्ति समस्त व्यवसायों पर कंपनी के सभी सदस्यों को दूरस्थ ई-बोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, डीमैटरियल।इन्ड या भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपनी ई-मेल आईडी कंजीकत नहीं की है, उनके द्वारा एजीएन में रिमोर्ट ई-बोटिंग और ई-बोटिंग के तरीके, लॉगिन आईडी और पासवर्ड से संबंधित निर्देश और प्रक्रियायें, एजीएन की सूचना में उपलब्ध करायी जायेंगी।

(ए) गौकिक खप में स्त्रो गए शेयर : कृषया पैन और केवाईसी विवरणों को अध्य प्रासंगिक प्रवज्ञों

और प्रलेखों के सह्य विधिवत प्रस्तुत एवं इस्ताक्षरित निर्धारित फॉर्म आईएसआर-1 (कंपनी की

वेबसाइट पर उपलब्ध) के सह्य जमा करके कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्टर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बीटल डाउस, तुतीय तल, 99 मदनगीर लोकल शॉपिंग कॉम्लेक्स के पीछे, नई दिल्ली – 110082 पर beetairta@gmail.com पर ईमेल के छारा पंजीकृत करें। (**वीं) डीमेंट मोड में एखे गए शेयर :** अपने डिवॉजिटरी पार्टिसिवेंट हारा बताई गई प्रक्रिया के

ई-नेस पतों को पंजीकृत करने /अध्वन करने करने की प्रविधि :

करने के लिए कृपया अपने डिवॉजिटरी पार्टिसिवेंट से संवर्क करें। किसी भी प्रश्न की स्थिति में, सदस्यगण कंपनी के कंपनी सियद से फोन नंबर 011-41411071 या ईमेल globus@gmail.com पर या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से ईमेल आईडी

अनुसार अपने डिनेट खाता में अपना ई-मेल पता एवं बैंक खाता विवरण पंजीकृत/अद्यतन

beetairta@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं या 011-29981281/82 पर कॉल करें। बोर्स के आदेशानुसार ह्वे य्सोक्स पॉक्र जनस्हान सिमिटेट

स्थान : नई दिस्सी

दिनांक : 28 अगस्त, 2023

POST OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS OF BIJNI DOOARS TEA CO LTD

Corporate Identity No: L70109WB1916PLC002698
Registered Office: 8, Camac Street, "Shantiniketan", 4th Floor, Suite No. 1B, Kolkata-700 017, Tel. No.: +91-33-2282 9303; E-mail: bijnidooars@gmail.com; Website: http://www.nahata-group.com/ This Post Offer Public Announcement ("Post Offer PA") is being issued by Mr. Sharad Nahata, member-

the Promoter Group ("the Acquirer"), to the public shareholders of Bijni Dooars Tea Co Ltd ("BDTCL") "the Company"), in respect of the proposed acquisition and voluntary delisting of fully paid-up equity shares of the Company from The Calcutta Stock Exchange Limited ("CSE") where the equity shares of the company are currently listed in accordance with the provisions of Securities and Exchange Board of India Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, as amended ("SEBI Delisting Regulations"). This Post Offer PA should be read in continuation with the Initial Public Announcement dated June 27, 2022 ("IPA") he Detailed Public Announcement dated August 10, 2023 published on August 11, 2023 ("DPA") and the etter of Offer dated August 10, 2023 dispatched to the Public Shareholders on August 16, 2023 ("LOF"). he capitalized terms used but not define in this Post Offer PA shall have the same meaning assigned to

he Acquirer had issued the IPA and the DPA seeking to acquire, in accordance with the SEBI Delisting tegulations and on the terms and conditions set out therein and in the LOF, upto 33,537 equity shares epresenting 5.59% of the fully paid of the Company from its Public Shareholders. The Public Shareholders olding equity shares were invited to submit bids pursuant to the Reverse Book Building Process ("RBB Process") conducted through the Stock Exchange Mechanism made available by BSE Limited ("BSE")

luring the bid Period (i.e., Monday, August 21, 2023 to Friday, August 25, 2023) in accordance with the SEBI Delisting Regulations. DISCOVERED PRICE AND EXIT PRICE In terms of Regulation 20 of the SEBI Delisting Regulations, the price determined as Discovered Price is ₹ 539/- per equity share. The Acquirer has accepted the Discovered Price of ₹ 539/- per equity share

1.1 In accordance with Regulation 21(a) of SEBI Delisting Regulations, the Detailed Public Announcement and the Letter of Offer, the Delisting Offer would be deemed to be successful only if the post offer shareholding of the Acquirer along with shares tendered by public shareholders reaches ninety percent Since the Acquirer together with Promoter and Promoter Group are already holding more than 90% of

the fully paid-up equity share of the Company hence the condition as stipulated under Regulation 21(a) of the SEBI Delisting Regulations has already been complied with. 2 The Acquirer will acquire 491 equity shares which were validly tendered at the Exit Price. Pursuant to the completion of such acquisition, the shareholding of the Acquirer together with Promoter/ Promoter

Group of the Company shall be 5,66,954 equity shares representing 94,49% of the fully paid up equity 2.3 Niche Technologies Pvt. Ltd., Registrar to the Delisting Offer has dispatched the Letter of Offer or August 16, 2023 to all the Public Shareholders as on the Specified Date i.e., Friday, August 04, 2023. .4 The Delisting Offer is thus deemed to be successful in terms of SEBI Delisting Regulations.

the Exit Price will be paid the consideration at the Exit Price of ₹ 539/- per equity share. The payment of consideration to all the public shareholders whose bids have been accepted will be made on Tuesday,

5 All the Public Shareholders of the Company who have validly tendered their equity shares at or below

2.6 In regard to the equity shares of the Public Shareholders whose bids have been rejected, the demat shares would be returned to the respective Public Shareholders in accordance with Method of Settlement contained in the DPA and LOF, read along with relevant SEBI Circulars. 7 Subsequently, the Company will initiate the necessary steps to delist the equity shares of the Company

from CSE. The date of delisting of equity shares shall be announced in the same newspapers in which the DPA and this Post Offer PA have appeared. OUTSTANDING EQUITY SHARES AFTER DELISTING

as the final price for the Delisting Offer ("Exit Price").

SUCCESS OF THE DELISTING OFFER

1 In accordance with Regulation 26 of the SEBI Delisting Regulations, all public shareholders of the Company who did not or were not able to participate or who unsuccessfully tendered their Equity Shares in the RBB Process will be able to offer their equity shares to the Acquirer at the Exit Price during a period of one year following the date of delisting of equity shares from CSE ("Exit Window"). A separate exit offer letter ("Exit Offer Letter") in this regard will be sent to such Residual Public Shareholders which will contain terms and conditions for participation post delisting in the Exit Window. 2 If the Public Shareholders have any query with regard to the Delisting Offer and/ or Exit Window, they

time as mentioned in such Exit Offer Letter. This Post Offer Public Announcement is expected to be available on the website of the Calcutta Stock Exchange Limited i.e., www.cse-india.com.

may contact the Manager to the Offer or Registrar to the Offer during the Exit Window within stipulated

IVM.

Intelligent Money Managers Private Limited CIN: U65923WB2010PTC156220 2nd Floor, YMCA Building, 25, Jawaharlal Nehr Road, Kolkata-700 087, West Bengal, India Tel. No.: +91 - 33 - 4065 6289

SEBI Registration No.: INM000012169

Validity Period: Permanent

Place : Kolkata

Kolkata-700017 Tel.No.: 033-2280 6616 / 17 / 18; Contact Person: Mr. Amit Kumar Mishra; Fax: 033-2280 6619; Email: info@intelligentgroup.org.in, amit@intelligentgroup.org.in Website: https://www.imoney.co.in/;

Contact person: Mr. Ashok Sen; Email: nichetechpl@nichetechpl.com; Website: https://www.nichetechpl.com; SEBI Registration Number: INR000003290 Validity Period: Permanent For and on behalf of Acquire

Niche Technologies Pvt. Ltd.

CIN: U74140WB1994PTC062636

3A Auckland Place, 7th Floor, Room No. 7A & 7B,

Date : August 28, 2023 Sharad Nahata

www.readwhere.com

दिनांक : 28 अगस्त, 2023

स्थान : नई दिल्ली

दिन शामिल) तक 67वीं एजीएम के उद्देश्य हेत् बंद रहेंगे।

दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिर्टेड

प्रधान प्रबन्धक

Notice regarding invitation of Public Objection/ Suggestion on Sub Division 1 (a) The Amended Part Layout Plan of Industrial Area Site-4, Sahibabad of the Uttar

(b) A copy thereof will be available for inspection at the Regional Manager Office of the

रिटको लॉजिस्टिक्स लिमिटेड

should also give his/her full name & address, Email id and contact number.